

But the Government of India has not accorded any approval of the said proposal. As a result, the Tribal families settled in the area do not get any financial assistance.

Therefore, Sir, I would request the hon. Minister for Home to expedite the approval in the matter so that poor Tribal families would be benefited by getting their financial assistance. Thank you.

REFERENCE TO THE NEED TO IMPLEMENT "YOUTH PARLIAMENT" PROGRAMME THROUGHOUT INDIA

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : समाप्ति महोदय में आपका हृदय से अभारी हूँ कि आपने मुझे "युवा संसद" के द्वारा देश में डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिये यह विशेष-सहत्व का प्रश्न उठाने का अवसर दिया है। समाप्ति महोदय डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि देश के लिये कोई भी संस्कार अगर बच्चों में पैदा किये जाते हैं तो वह अमिट अमर होते हैं और भजवत होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी और देशों के मकाबले में सफल है। फिर भी भावी-पीढ़ी में डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग दी जाये यह बहुत अत्यावश्यक है।

समाप्ति महोदय पहले यह दिल्ली राज्य में ही चालू था जब 1971 में मैं यहाँ लोकसभा का सदस्य होकर आया था मैंने जब यहाँ के स्कूल के बच्चों में जाकर देखा। सोभाय से इन्दिरा गांधी जी ने इसमें बहुत मदद की और आज यह नागालैंड में तमिलनाडु में अरुणाचल में हरियाणा में राजस्थान में उत्तर-प्रदेश में और मध्यप्रदेश में भी चालू है। लेकिन बाकी जा और राज्य हैं उनमें चालू नहीं है। मैं आपके मध्यम से सरकार का संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जो और राज्य हैं जहाँ यूथ पार्लियामेंट का कार्याचलन नहीं है उन राज्यों से मिलकर वहाँ भी चलाएँ। अभी तक यह केन्द्रीय सरकार के तहत काम चलाया जा रहा है। मेरा ऐसा अनुभव हुआ है कि राज्य सरकारें

अगर इसमें दिलचस्पी लें तो इसे और गति से बढ़ा सकते हैं।

समाप्ति महोदय मैं अनुभव के तौर पर यह कह सकता हूँ कि युवा पीढ़ी में जो हमारे स्कूलों में लीडर आफ आपोजीशन बनते हैं विभिन्न पार्टियों के लीडर बनते हैं स्पीकर बनते हैं प्राइम-मिनिस्टर बनते हैं विभिन्न विभागों के मंत्री बनते हैं उनका जो ज्ञान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत का वह मैं अपने से ज्यादा कहने को तैयार हूँ और किसी माननीय-सदस्य या मंत्री से कहने को तैयार नहीं हूँ। आज हमारी युवा-पीढ़ी में इससे हमारी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान आया है चाहे हमारी सुरक्षा पट्टी का सवाल हो, चाहे ला एण्ड आइर का सवाल हो, चाहे पंजाब समस्या हो, चाहे असम समस्या हो, चाहे खाद्य समस्या हो, जो भी समस्याएं आज हमारे देश के सामने हैं, वे युवा पीढ़ी में इस रूप में आयी हुई हैं कि उनको उसका बड़ा भारी ज्ञान हो जाता है इसके सहारे से। दूसरा ज्ञान हो नहीं काफी नहीं है डेमोक्रेसी में यह भी जरूरी है कि हम अपने विचारों को प्रभावी ढंग से दूसरों से कह सकें और यह बात मैं देख रहा हूँ युवा-पीढ़ी में यूथ-पार्लियामेंट के द्वारा प्रभावी ढंग से अपने विचार को दूसरों के सामने कहने की भावना पैदा हो जाती है। तीसरा जो गुण पैदा होता है वह सहनशक्ति का होता है। मैंने यह निस्संकोच कहने में कोई डर नहीं है कि हमारी अभिव्यक्तियों में और दूसरी जगहों में भी जहाँ तक हम* एक माननीय सदस्य* को देखा करते थे कि स्पीकर को धकेल कर बैठ जाया करते थे सारे देखते थे। आज की युवा पीढ़ी में इस तरह की कोई बात नहीं है कि ऐसी भावना को पैदा करें... (अवधान)...

MR. CHAIRMAN: Don't record the name. Please say "some Members."

श्री राम चन्द्र विकल : सहनशक्ति का मैं कह रहा था। पक्ष और विपक्ष में

*Substituted as ordered by the Chair.

[रामचन्द्र विकल]

इतनी बड़ी सहनशक्ति युवा-पीढ़ी में देखने में आती है जो मेरे जैसे, कम से कम में अपना तो कह सकता हूँ कि मेरे जैसे उतनी सहनशक्ति नहीं है, जो युवा पीढ़ी में चाहे मिनिस्टर बनते हों जिस प्रकार गंभीरता से जवाब देते हैं, चाहे आपोजीशन के लीडर बनते हों, उनकी सहनशक्ति है। एक और गुण जो मुझे नजर आता है... (सनय की घंटी)... एक सेकेंड में खतम कर रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: This is a Special Mention, not a speech.

श्री राम चन्द्र विकल : युवा पीढ़ी में प्रशंसन होने का गुण शुरू से ही पैदा हो जाता है जो डेमोक्रेसी के लिये जरूरी है।

मैं इन शब्दों के साथ संसदीय कार्य-मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाता चाहूँ कि जिन राज्यों में यूथ-पार्लियामेंट का फंक्शन अभी नहीं है उन सारों में करायें। इससे मुझे निस्संदेह मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी सफल होगी और मजबूत होगी।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: He is a thorough gentlemen and because of his gentlemenliness he is unable to leave the party.

REFERENCE TO THE SITUATION ARISING OUT OF DECISION TO SHIFT FOREIGN EXCHANGE DE- PARTMENT F THE STATE BANK OF INDIA FROM CALCUTTA TO BOMBAY

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I would like to refer to a situation which pertains to the Foreign Exchange Department of the State Bank of India in Calcutta. Sir, the State Bank of India has its foreign exchange department in Calcutta. This Department has been dealing with various aspects of foreign exchange transaction since its inception During the last several years, the jobs entrusted to this Department have either been shifted

or transferred to other agencies. The rupee traveller cheque section was also shifted in 1983, thereby transferring a major part of the job of this Department. In 1986, the major job of maintaining and reconciliation was also transferred to an outside agency. The bank authorities continuously assured the staff that all this will not affect job potentiality of the Department and that it will not affect their service prospects.

In early 1986, the Bank installed a microprocessor in the Department for their operation. Even at that time the Bank assured the staff that the installation of the microprocessor will not affect the interests of the employees. The Association of the Employees continued to protest saying that all these measures were bound to affect their prospects and that the shifting measures will ultimately result in crippling of the Banks work in Calcutta. Sir, what happened then? Dealing operations which entail quoting the various currency rates are supplied to other banks. It requires various ultra modern telecommunication links and the bank in Calcutta has ultra modern telecommunication link and also the Indonet link which has been established and commissioned there. Now the Bank authorities say that the telecommunication link in that bank and in the city is not quite capable to justify the existence of the Bank's foreign exchange department in Calcutta. So, they want to decentralise and then shift it to Bombay. They have installed this Indonet link. Instead of giving it a trial, they now say that the telecommunication service is not properly working. New, telecommunication failure is common in the country. It is so everywhere. This is a plea by the management for shifting the Department from Calcutta to elsewhere. Sir, you know that the headquarters of the Bank was originally in Calcutta. They have started shifting one by one.

I will request that this policy of the Bank management to shift the foreign exchange Department from Calcutta should be immediately stopped and the Government should take adequate steps in the matter.